

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 30/2021 दिनांक: मार्च, 06/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 06.03.2021 को थाना बड़ागांव के उ0नि0 अनिल कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बड़ागांव में पंजीकृत मु0अ0सं0 565/20, धारा – 498ए/304बी/302 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता बाबतपुर तिराहे के पास मौजूद है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंच कर, मुखबिर की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्ता को समय करीब 10.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त के संबंध में थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरण –

- उ0नि0 अनिल कुमार, म0का0 सन्नो देवी थाना – बड़ागाँव, जनपद – वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 05.03. 2021को प्रभारी थाना फूलपुर मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में जगदीशपुर में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि शराब ब्यवसायी से दिनांक 7/2/को हुई लूट 2021 की घटना को कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. प्रिंस कुमार पुत्र रतन लाल 2. उत्सव गौतम पुत्र रमेश भारती निवासीगण देवराई थाना फूलपुर जनपद वाराणसी व 3. भास्करानन्द उर्फ खूंटी पुत्र आद्या प्रसाद निवासी कीरतपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को देवराई रेलवे स्टेशन के पास खेत में मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है उक्त सूचना पर विश्वास कर मौके पर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्तगण उपरोक्त को पकड़ा गया। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों के कब्जे से 11600/- रुपये नगद व ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, LIC की पावती रसीद, डायरी व कागजात तथा एक अदद घटना में प्रयुक्त बांस बरामद किया गया इस लूट का मास्टर माइन्ड इजहारूल पुत्र आशिक शाह निवासी धरसौना थाना फूलपुर जनपद वाराणसी है जिसकी तलाश की जा रही है। तीनों अभियुक्तगण को समय करीब 17.15 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रिंस कुमार पुत्र रतन लाल निवासी देवराई थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र वर्षा 19
2. उत्सव गौतम पुत्र रमेश भारती निवासी देवराई थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र वर्षा 19
3. भास्करानन्द उर्फ खूंटी पुत्र आद्या प्रसाद निवासी कीरतपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र वर् 20षा

अभियुक्त के पास से बरामद सम्पत्ति-

1. एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
2. एक अदद आधार कार्ड।
3. एक अदद बांस।
4. तीन अदद एलआईसी की पावती रसीद।
5. रूपये नगद। 11600

अभियुक्तगणों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग-

1. मु0वि0द0बी भा120/411/0394 धारा 2021/0054 0सं0अ0

गिरफ्तार करने वाले टीम के सदस्य-

थाना प्रभारी उनि० काशीनाथ उपाध्याय०, उनि० अनन्त कुमार मिश्र०, काबाल गोविन्द ०, कासुनील कुमार यादव ०,
काराम रूप ०, कारूबेश ० थाना फूलपुर जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

उ0प्र0 सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में वाराणसी पुलिस को मिला प्रथम स्थान

उ0प्र0 सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों को *जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में पूरे प्रदेश में वर्ष 2020 में माह जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, नवम्बर, दिसम्बर में प्रथम स्थान व माह अक्टूबर में आठवाँ तथा वर्ष 2021 में माह जनवरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2021 के माह फरवरी की जारी की गयी रैंकिंग में जनपद वाराणसी को पुनः प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। जनपद वाराणसी पुलिस के जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों का मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय से मूल्यांकन किये जाने पर उ0प्र0 के सभी 75 जनपदों में जनपद वाराणसी की कार्यवाही 100% रही और रैंक प्रथम रहा।* पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा स्वयं जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण हेतु जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारियों को सदैव निर्देशित किया जाता है और जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) के कार्यों की स्वयं मानिट्रिंग की जाती है। जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल द्वारा संबंधित थानों पर ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।

थाना प्रभारी द्वारा प्राप्त सन्दर्भों की जाँच आख्या ऑनलाइन दिये गये समय के अनुसार संबंधित को प्रेषित की जाती है तथा जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) से प्राप्त शिकायतों को आईजीआरएस सेल के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा लगनशील व कर्तव्यनिष्ठ रहकर सम्पादित किया जाता है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 33/2021 दिनांक: मार्च, 06/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 06.03.2021 को जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त निरीक्षक प्रमोद कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को प्रशासनिक आधार पर तत्कालिक प्रभाव से पुलिस लाइन वाराणसी स्थानान्तरित किया जाता हैं।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 06.03.2021 को थाना शिवपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0027/2021 धारा 323/504/506/392/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज सिंह बागी पुत्र मनोज सिंह हालपता बरुनापुरी कालोनी फुलवरियां थाना कैण्ट वाराणसी, मूल पता ग्राम पोस्ट चकिया थाना बैरिया जनपद बलिया को राजर्षि मूर्ति थानाक्षेत्र शिवपुर के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- पंकज सिंह बागी पुत्र मनोज सिंह हालपता बरुनापुरी कालोनी फुलवरियां थाना कैण्ट वाराणसी, मूल पता ग्राम पोस्ट चकिया थाना बैरिया जनपद बलिया

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1175/2017 धारा 147/148/149/323/352/427/452/504/506 भादवि थाना कैण्ट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 0794/2018 धारा 171-C(2)(b)/332/353/427/506 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0224/2017 धारा 386/427/504/506 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 0173/2017 धारा 147/504/506 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 0059/2020 धारा 147/323/427/504 भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना शिवपुर वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 0027/2021 धारा 323/392/504/506 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 आनन्द कुमार चौरसिया, हे0का0 संजय सिंह व कां0 विरेन्द्र कुमार सरोज थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 06.03.2021 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 110/2021 धारा 363/366/354/294/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त योगेश राजभर पुत्र पारस राजभर निवासी सोयेपुर पोखरा के पास थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष को बेनीपुर पोखरे के पास से समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार कर कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- योगेश राजभर पुत्र पारस राजभर निवासी सोयेपुर पोखरा के पास थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 रामानन्द यादव व म0का0 सोनम थाना सारनाथ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।




कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 36/2021 दिनांक: मार्च, 06/2021

प्रेस नोट

दिनांक 06.03.2021 को पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना सिगरा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, मालखाना, कार्यालय, कार्यालय में रखे अभिलेखों, पुलिस बैरक, बन्दीगृह की साफ-सफाई, मेस, शौचालय इत्यादि का निरीक्षण किया गया। इसी दौरान महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं लिये गये फीडबैक की समीक्षा भी की गई। उक्त निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान प्राप्त त्रुटियों में सुधार किये जाने एवं शिकायतों के निस्तारण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 37/2021 दिनांक: मार्च, 06/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 06.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 175 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4530 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 708 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 147 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2123 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी में कार्यवाही व 91 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।